



UTTAM SUGAR MILLS LIMITED

Registered Office : Village - Libberheri, Roorkee, District - Haridwar, Uttarakhand - 247667
Corporate Office : A-2E, IIIrd Floor, CMA Tower, Sector-24, NOIDA - 201 301 Uttar Pradesh, India
Telephone : 91-120-6545766, Facsimile : 0120-4152766 E-mail : gramarathnam_uttam@yahoo.com

August 26, 2016

National Stock Exchange of India Ltd.
Listing Department
"Exchange Plaza", Bandra-Kurla Complex,
Bandra (E), Mumbai - 400 051.

Ref. :- Symbol - UTTAMSUGAR

BSE Ltd.
Listing Department
P.J. Tower,
Dalal Street, Fort
Mumbai - 400 001.
Ref. - Scrip Code - 532729

Dear Sirs,

Sub. :- AGM Updates - Advertisement published in Newspaper

In continuation of our letter dated 11th August, 2016 and 23rd August, 2016 regarding Annual General Meeting of the Company to be held on 16th September, 2016, we are sending herewith copy of advertisement published in the newspaper the "Financial Express" and "Naya India" (Vernacular Language) on 25th August, 2016 regarding Notice of AGM, Book Closure and e-voting.

This is in compliance of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. You are requested to take the information on records.

Thanking you.

Yours faithfully,
For Uttam Sugar Mills Ltd.


(RAJESH GARG)

ADLL. GENERAL MANAGER - CORPORATE & LEGAL



Encl. :- As above.

Refinery for a period of Two Years.

TENDER PERIOD: Sale of Tender document From 26.08.2016 Onwards. **Prebid Meeting** on 16.09.2016 @ 10.30 A.M. **Bid closing date:** 26.09.2016, 15.00 hrs. **Bid opening date:** 26.09.2016, 15.30 hrs

Together, Let us build a Clean India

IP Rings Ltd.

(A Member of the Amalgamations Group)
(CIN: L28920TN1991PLC020232)

Regd. Office: D-11/12, Industrial Estate, Maraimalai Nagar - 603 209.

NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to Regulation 29 read with Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, a Meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Wednesday, September 7, 2016 to consider and take on record the Audited Financial Results of the Company for the year ended June 30, 2016.

The information contained in this Notice is also available on the Company's website at www.iprings.com

For IP Rings Ltd.,

S. Priyamvatha
Company Secretary

Date : August 24, 2016
Place : Maraimalai Nagar

D. S. KULKARNI DEVELOPERS LTD.
CIN: L45201PN1991PLC063340
Regd. Office - DSK House, 1187/60 J. M. Road, Shivajinagar, Pune 5.
Ph. 020-56047100 / Fax. 020-25535772
Email: sales@dskd.com | www.dskdl.com

NOTICE

NOTICE is hereby given that the Meeting of the Board of Directors of D. S. Kulkarni Developers Limited will be held on **Saturday, the 3rd day of September, 2016** at the Registered office of the Company at 1187/60, J. M. Road, Shivajinagar, Pune - 411 005 at 12.30 p.m. *inter-alia* to consider and approve the Un-audited Financial Results for the quarter ended 30th June, 2016.

By order of the Board
For D. S. Kulkarni Developers Ltd.
Sd/-
Pune Amol Purandare
24.08.2016 Company Secretary

Date: 24th August 2016
Place: Kolkata

(Abhishek Lahoti)
Company Secretary



Uttam Sugar Mills Limited

(Corporate Identity Number (CIN) : L99999UR1993PLC032518)

Regd. Office: Village Libberheri, Tehsil Roorkee,
District Haridwar, Uttarakhand - 247667.

Tel.: 0120 - 4152766 / 4193799, Website : www.uttamsugar.in,
E-mail id : investorrelation@uttamsugar.in

NOTICE OF 21ST ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING AND BOOK CLOSURE

Notice of AGM- NOTICE is hereby given that the 21st Annual General Meeting (AGM) of the Members of the Company will be held on Friday, the 16th day of September, 2016 at 12.00 noon at the Registered Office of the Company at Village Libberheri, Tehsil Roorkee, District Haridwar, Uttarakhand - 247667 to transact the business as set out in the Notice of AGM.

Copies of the Notice of 21st AGM, Annual Report and attendance slips have already been sent through email to all the members whose email ids are registered with the Depository Participant. Physical copies of the same have been sent to all other members at their registered address, whose email ids are not registered with the Depository Participant. The Company has completed the dispatch of Annual Report, Notice of AGM alongwith attendance slips and proxy forms through mail and through speed post on Tuesday, 23rd August, 2016. The Notice of the 21st AGM and the Annual Report for the financial year 2015-16 is also available on the Company's website www.uttamsugar.in and website of the Central Depository (India) Services Limited ('CDSL') www.evotingindia.com.

E-Voting- The Company is pleased to provide to Members the facility to cast their vote by electronic means on all the resolutions set forth in the Notice in terms of the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules 2015 amended upto date and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The e-voting period will commence on Tuesday, 13th September, 2016 (at 9:00 a.m.) and ends on Thursday, 15th September, 2016 (at 5:00 p.m.).

Members are eligible to cast their vote electronically or at Annual General Meeting through ballot paper. Person who becomes a member of the Company after dispatch of Notice may obtain login details by sending request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or delhi@linkintime.co.in. Voting through electronic mode shall not be allowed beyond 5:00 pm on Thursday, 15th September, 2016. The e-voting module shall be disabled after 5:00 pm on 15th September, 2016. The facility for casting the vote through Ballot Paper will be made available at the AGM and the Members attending the AGM who have not cast their vote by means of e-voting shall be able to cast their vote at the AGM through Ballot Paper. The Members who have cast their vote by e-voting may also attend the AGM but shall not be entitled to cast vote again. A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depository as on the cut off date, i.e. 9th September, 2016 shall be entitled to avail the facility of e-voting as well as voting in the AGM. Members are required to use their login id and password to vote electronically by following procedure of e-voting given in the notice of Annual General Meeting. In case of any queries pertaining to e-voting, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for Members and e-voting user manual for Members available at the Downloads section of www.evotingindia.com or contact Mr. G. Ramarathnam, Chief - Legal and Corporate Affairs & Company Secretary, A-2E, 11th Floor, CMA Tower, Sector-24, NOIDA (U.P.), Contact No. 0120-4152766 or e-mail: at_investorrelation@uttamsugar.in.

Book Closure - Pursuant to the Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 and Section 91 of the Companies Act, 2013 and the applicable Rules thereunder, the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Friday, 9th September, 2016 to Friday, 16th September, 2016 (both days inclusive) for the purpose of this AGM.

By Order of the Board of Directors of the Company
For Uttam sugar Mills Limited
Sd/-

(G. RAMARATHNAM)
Chief - Legal and Corporate Affairs &
Company Secretary
(Membership No. FCS-1021)

Date : 24th August, 2016
Place : Noida

Summary of reasons for

- This Offer is not a comp...
- The LoF was dispatched be i.e. Wednesday, August 10...
- Public Shareholders are re to *inter alia* the procedure. Please note that a copy o during the Tendering Per non-availability of the For
- a. In case of Equity Sh** approaching their brok number of Equity Shar transferors), self-atteste shareholders), and val Transaction Registratio certificates and other r of the Tendering Peri
- b. In case of Equity Sh** Offer by approaching t in dematerialized form
- In terms of Regulation 16(1 in terms of Regulation 16(
- Details regarding the stat** laws of Colombia and Tan
 - approvals under anti-t proposed transaction i of the authority's inter believes that the clear up to a period of five thus the combined ma
 - approvals under anti-t allowing the PAC, and specified by such relev with the relevant aut received a letter date transaction under the consummation of the p letter dated June 17, received during the at
- In addition to the above, a Equity Shares held by Ans with the Share Purchase A number FED.CO.FID. No. Anshul Amrish Bhatia and deemed to be incorporated Approvals) of the LoF. In case any other statutory be subject to such approv
- Revised Schedule of Ac** Target Company are requ

Date of the PA
Date of publishing the DPS
Filing of the Draft Letter of G
Last date for public announc
Last date for receipt of comm (in the event, SEBI has not information from the Manage Identified Date*
Date by which Letter of Offer Public Shareholders as of th
Last date for upward revision
Last date by which the reco independent directors of the
Date of public announcement newspapers where the DPS
Date of commencement of if



ESCORTS MUTUAL FUND

ESCORTS MUTUAL FUND DIVIDEND NOTICE

Notice is hereby given that the Trustees of Escorts Mutual Fund, M/s Escorts Investment Trust Ltd., have, in their meeting held on 24.08.2016 declared the following dividends:

Scheme	Rate of Dividend	Record Date	NAV as on 23.08.2016
--------	------------------	-------------	----------------------



उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड

(नियम पहचान संख्या (सीआईएन) : L99999UR1993PLG0032518)

पंजीकृत कार्यालय - प्राग लिम्बरहेड़ी, चहरील रुड़की,

जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड - 247667

दूरभाष नं०: 0120-4152766/4183798, वेबसाइट- www.uttamsugar.in

ईमेल आईडी- investorrelation@uttamsugar.in

21वीं वार्षिक सामान्य बैठक, ई-वोटिंग तथा बही बंदी की सूचना

एजीएम की सूचना - एतद्वारा सूचना दी जाती है कि कम्पनी के सदस्यों की 21वीं वार्षिक सामान्य बैठक (एजीएम) शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2016 को दोपहर 12.00 बजे पंजी, कार्यालय प्राग लिम्बरहेड़ी, चहरील रुड़की, जिला हरिद्वार, उत्तराखण्ड - 247667 में आयोजित की जाएगी, जिसमें एजीएम की सूचना में उल्लेखित व्यवसाय का निष्पादन किया जाएगा।

21वीं एजीएम की सूचना, वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां तथा उपस्थिति पर्चियां उन सभी सदस्यों को ई-मेल द्वारा प्रेषित की जा चुकी हैं, जिनकी ई-मेल आईडी प्रतिभागी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत है। उसकी भौतिक प्रतियां ऐसे अन्य सभी सदस्यों को उनके पंजीकृत पते पर भेजित की जा चुकी हैं, जिनकी ई-मेल आईडी प्रतिभागी डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं है। कम्पनी वार्षिक रिपोर्ट, एजीएम की सूचना तथा उपस्थिति पर्चियों एवं परेथी प्रपत्रों (श्रीकैसी फार्म) का फेल और स्प्रीड शीट द्वारा भेजने का कार्य 23 अगस्त, 2016 को पूर्ण कर चुकी है। 21वीं एजीएम की सूचना तथा वित्तीय वर्ष 2015-16 के वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाइट www.uttamsugar.in एवं कंप्यूटर डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड (सीडीएसएल) की वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध है।

ई-वोटिंग - कम्पनी अपने सदस्यों को कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 106 के साथ पठित कम्पनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियमावली, 2015 अध्यात्म संशोधित के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमवली, 2015 के विनियम 44 के प्रावधानों के निष्पत्ती में सूचना में निर्धारित सभी प्रस्तावों पर इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोट डालने की सुविधा प्रदान कर वर्णित है। ई-वोटिंग अवधि मंगलवार, 13 सितम्बर, 2016 (प्रातः 9.00 बजे) को प्रारंभ होगी तथा बुधवार, 15 सितम्बर, 2016 (सायं 5.00 बजे) को समाप्त होगी।

सादरवगण अपना वोट इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अथवा वार्षिक सामान्य बैठक में मता वल द्वारा डालने हेतु प्राह्य है। कोई व्यक्ति जो सूचना प्रेषण के उपरांत कम्पनी का सदस्य बनता है helpdesk.evoting@cdslindia.com अथवा delhi@linkintime.co.in पर अनुरोध भेजकर लॉगइन विवरण प्राप्त कर सकता है। इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा वोटिंग बुधवार, 15 सितम्बर, 2016 को सायं 5.00 बजे के बाद करने की अनुमति नहीं होगी। बुधवार, 15 सितम्बर, 2016 को सायं 5.00 बजे ई-वोटिंग मौद्रिक गिरफ्त कर दिया जाएगा। एजीएम में मता पत्र द्वारा माधान की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी तथा एजीएम में मता ले रहे ऐसे सदस्य जिनने ई-वोटिंग द्वारा वोट नहीं डाला है, अपना वोट एजीएम में मता पत्र द्वारा डाल सकते हैं। जो सदस्य अपना वोट ई-वोटिंग द्वारा डाल चुके हैं, वे भी एजीएम में मता ले सकते हैं परंतु उनके पुनः वोट डालने की अनुमति नहीं होगी। कोई व्यक्ति जिसका नाम विच्छेदन तिथि अर्थात् 9 सितम्बर, 2016 को सदस्यों के रजिस्टर में अथवा डिपॉजिटरी द्वारा अनुरक्षित लाभार्थी स्थानियों के रजिस्टर में दर्ज है, ई-वोटिंग तथा एजीएम में वोट डालने का हकदार होगा। सदस्यों से, इलेक्ट्रॉनिक साधनों द्वारा अपना वोट डालने के लिए, वार्षिक सामान्य बैठक की सूचना में दी गई ई-वोटिंग की प्रक्रिया का पालन करते हुए, अपनी लॉगइन आईडी तथा पासवर्ड का उपयोग किया जाना अपेक्षित है। ई-वोटिंग के संबंध में किसी संदेह की स्थिति में आप www.evotingindia.com के आनलाइन सेक्शन में उपलब्ध सदस्यों हेतु ई-वोटिंग उपयोगकर्ता मैनुअल तथा सदस्यों हेतु बहुधा पूछे जाने वाले प्रश्न देखें अथवा श्री जी. रामरत्नम, चीफ - लीगल ऐण्ड कार्पोरेट अफेयर्स एण्ड कम्पनी सेक्रेटरी, ए-2ई, तृतीय तल, सीएनए टावर, सेक्टर-24, नोएडा (उत्तर प्रदेश), से सम्पर्क करें। 0120-4152766 अथवा ई-मेल : investorrelation@uttamsugar.in पर सम्पर्क करें।

बही बंदी - सेबी (सूचीयन दायित्व एवं प्रकटन अपेक्षाएं) विनियमावली, 2015 के विनियम 42 तथा कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 91 और उसके अधीन लागू नियमों के प्रावधानों के अनुसरण में, सदस्यों का रजिस्टर तथा कम्पनी की शेयर अंतरण बहियां शुक्रवार, 9 सितम्बर, 2016 से शुक्रवार, 18 सितम्बर, 2016 (दोनों तिथियां सहित) इस एजीएम के प्रयोजनार्थ बंद रहेंगी।

कम्पनी के निदेशक मंडल के आदेश द्वारा
यात्री उत्तम शुगर मिल्स लिमिटेड

हस्ता./-

(जी. रामरत्नम)

चीफ - लीगल ऐण्ड कार्पोरेट अफेयर्स एण्ड
कम्पनी सेक्रेटरी

(सदस्यता सं. एकसीएस-1021)

तिथि : 24 अगस्त, 2016

स्थान : नोएडा

